

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(₹ करोड़)

मद	2023-24	2023	2024					
		जुला. 28	जून 21	जून 28	जुला. 5	जुला. 12	जुला. 19	जुला. 26
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	18054	20183	6606	10411	5790	3856	2323	2466
1.2 प्राथमिक व्यापारी	22676	19282	27126	24135	18519	17056	16734	9749
1.3 राज्य सरकारें	5701	35727	44835	46310	38710	30300	41340	46140
1.4 अन्य	88670	122735	95368	88554	94791	95188	93042	95885
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	84913	63735	61859	54590	49091	48413	51095	51248
2.2 प्राथमिक व्यापारी	87779	119595	58731	66312	61856	63109	59966	57730
2.3 राज्य सरकारें	4070	20791	14592	14592	15592	15292	15292	14922
2.4 अन्य	102311	138170	127409	123098	129053	124478	120939	119522
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	91819	81443	92156	92592	90418	88810	89690	90700
3.2 प्राथमिक व्यापारी	159085	182603	145237	143140	140991	142478	140420	137182
3.3 राज्य सरकारें	41487	49427	37753	38191	38184	38589	38603	38525
3.4 अन्य	165095	136953	158607	156268	160591	160712	161890	164118
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	318736	172959	245624	204835	143591	197638	177044	175531
4.4 अन्य	442	730	379	592	1345	720	646	1008
कुल खज़ाना बिल (14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#	871662	990645	870281	858193	843586	828282	831336	828188

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं है। इन बिलों का स्वरूप मध्यवर्ती है, क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए इन्हें परिसमाप्त किया जाता है।

टिप्पणी: प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) में पीडी कारोबार करनेवाले बैंक शामिल हैं।